



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 13 अक्टूबर, 2020

आश्विन 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 28/2020/1449/सात-न्याय-2-2020-153जी-2019

लखनऊ, 13 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-253

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 6 की उपधारा (1) और उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 के नियम 26 के उपनियम (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से, निम्नलिखित व्यक्तियों को, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित जिलों में स्थित कुटुम्ब न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये परामर्शदाता के रूप में आबद्ध करती हैं:-

अनुसूची

क्रमांक	जिलों का नाम	नाम और पता	जन्मतिथि
1	2	3	4
1	लखनऊ	सुश्री ज्योत्सना गिरी पुत्री श्री एस० एन० गिरी, 361, राधा कृष्णा मन्दिर लैन, नरहीं लखनऊ	25.06.1971
2	लखनऊ	सुश्री आभा सक्सेना पुत्री स्व० के० के० सक्सेना, फ्लैट नं० 306ए, थर्ड फ्लोर, उजाला अपार्टमेन्ट, सेक्टर 20, इन्दिरा नगर लखनऊ।	04.03.1969
3	इलाहाबाद	1-श्री वीरेन्द्र सिंह, रमाईपुर, थाना-सराय इनायत, इलाहाबाद।	10.03.1978
		2-श्रीमती श्वेता सिंह, कंसरवानी सीमेंट स्टोर निकट लेबर क्रासिंग अल्हापुर प्रयागराज।	01.01.1984

1	2	3	4
		3-सुश्री संध्या कुमारी, 444/16ए/1, इन्द्रापुरी कालोनी निकट बैहराना, इलाहाबाद	03.06.1081
		4-श्री उदय राज सिंह पूरेखगन, बागवान, घूरपुर, तह0-करछना।	06.05.1979
		5-सुश्री सुशीला देवी, सदहद इन्द्रापुर, मानिकपुर, चित्रकूट कर्वी।	01.01.1970
4	आजमगढ़	1-श्री श्रवण कुमार गुप्ता मा0 आसिफगंज पोस्ट-सदर, थाना कोतवाली आजमगढ़।	01.07.1970
		2-श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, हीरा पट्टी, तह0-सदर, आजमगढ़।	02.01.1978
		3-श्री विनय कुमार तिवारी कोलबाज बहादुर, गोरखपुर, सेक्टर-1, पोस्ट-भवरनाथ, थाना कोतवाली, आजमगढ़	01.11.1979
		4-श्री कुलदीप कुमार सिंह, ग्राम-धौरहरा, पोस्ट-कबीरुद्दीनपुर, थाना- अतरौलिया, तह0-बूढनपुर, आजमगढ़।	01.01.1976
5	बलिया	1-सुश्री नूतन श्रीवास्तव, क्वाटर नं0-111-20, कलेक्ट्रेट कालोनी, निकट शिव मन्दिर, सिविल लाइन्स, बलिया।	01.07.1977
6	कानपुर नगर	1-सुश्री संगीता गुप्ता, मकान नं0-13ए, नेताजी नगर पीएसी रोड, कानपुर नगर।	01.04.1979
7	कुशीनगर	1-श्री विन्धवासिनी कुमार त्रिपाठी, ग्राम-अहिरौली राय, पोस्ट-अहिरौली बाजार, थाना-कसिया, कुशीनगर।	24.08.1981
8	लखीमपुर खीरी	1-श्रीमती निधि लता, नारायण विहार कालोनी, उदयपुर महेवा, जिला-लखीमपुर खीरी।	04.07.1978
		2-श्रीमती सुनिता देवी, गोतइया बाग, थाना-कोतवाली, लखीमपुर खीरी।	15.06.1978
		3-श्रीमती उर्मिला सिंह, निकट पाण्डेय बाबा मंदिर, पलिया कलन, जिला-लखीमपुर खीरी।	20.10.1976
9	मुजफ्फरनगर	1-श्री प्रवीण कुमार, मकान नं0-23/1, गली नं0 14, गांधी कालोनी, मुजफ्फरनगर	01.06.1974
10	प्रतापगढ़	1-सुश्री ममता सिंह, ग्राम व पोस्ट-कुशफराह, थाना-मन्धाता, जिला-प्रतापगढ़	20.07.1979

1	2	3	4
		2-सुश्री मीरा आदित्य, कनरापुर, कतरा रोड निकट कृषि भवन, पोस्ट व जिला-प्रतापगढ़।	15.08.1981
		3-सुश्री मिन्नी शुक्ला, एडवोकेट शुकुलपुर, दहिलामऊ, सदर जिला-प्रतापगढ़।	15.07.1975
11	श्रावस्ती	1-सुश्री महिमा तिवारी, ग्राम-कमदी, पोस्ट-विशुनापुर लोहरी, थाना-सिरसिया, जनपद-श्रावस्ती।	01.07.1973
12	उन्नाव	1-श्री अरिन्दम, शिवदीनखेरा (चोटकावाखेरा), पोस्ट-नेवराना, जिला-उन्नाव।	01.04.1964
		2-सुश्री रूबी ग्यावली, 117 क्यू/4, इन्द्रापुरी कानपुर।	28.06.1973
		3-श्रीमती सबीना उमर, 466 जवाहर नगर (गुप्ता कालोनी), उन्नाव।	10.10.1962

2-उक्त व्यक्तियों की परामर्शदाता पद के लिये आबद्धता, शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं है और भी सम्बन्धित न्यायालयों में संविदा के आधार पर सम्बद्ध होंगे।

3-तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर उन अभ्यर्थियों के अगले कार्यकाल के लिए विचार किया जा सकता है।

4-आबद्ध व्यक्ति ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया गया है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 28/2020/1449/VII-Nyay-2-2020-153G-2019, dated October 13, 2020:

No. 28/2020/1449/VII-Nyay-2-2020-153G-2019
Dated Lucknow, October 13, 2020

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Family Courts Act, 1984 (Act no. 66 of 1984) and sub-rule (1) of the rule 26 the Uttar Pradesh Family Courts Rules, 1995 the Governor with the concurrence of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to engage the following persons as Councillor in the Family Courts in Districts mentioned against each in Column-2 of the Schedule below for three years with effect from the date of their taking over charge.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name and Address	Date of birth
1	2	3	4
1	Lucknow	1. Ms. Jyotsna Giri D/O Sri S.N. Giri 361, Radha Krishna Mandir Lane, Narhi, Lucknow	25.06.1971
		2. Ms. Abha Saxena D/O Late K.K. Saxena Flat No. 306A, Third Floor, Ujala Apartments, Sector 20, Indira Nagar, Lucknow	04.03.1969

1	2	3	4
2	Allahabad	1. Sri Virendra Singh R/o Village and post Ramaipur Police Station, Sarai Inayat, Allahabad.	10.03.1978
		2. Smt. Shweta Singh R/O Kesarwani Cement Store near labour Crossing, Allahpur, Prayagraj.	01.01.1984
		3. Sushri Sandhya Kumari R/o 444/16A/1 Indrapuri Colony new Baihrana, Allahabad.	03.06.1981
		4. Sri Uday Raj Singh R/o Vilage Purekhagan Post Bagwana, Police Station Ghoorpur, Tehsil-Karchana.	06.05.1979
		5. Sushri Sushila Devi R/o Sarhad Indira Nagar, Manikpur Chitrakoot Karvi.	01.01.1970
3	Azamgarh	1. Sri Shravan Kumar Gupta R/o Mog Asifganj, Post Sadar, Police Station Kotwali, Azamgarh.	01.07.1970
		2. Sri Chandra Prakash Singh R/o Village & Post Heera Patti. Tehsil-Sadar, Azamgarh.	02.01.1978
		3. Sri Vinay Kumar Tiwari R/o Village Coalbajbahadur, Gokul Nagar, Sector-1, Post-Bhawarnath, Police Station-Kotwali, Azamgarh.	01.11.1979
		4. Sri Kuldeep Kumar Singh, R/o Village Dhaurhara, Post Kabiruddinpur, P.S.-Atraulia, Tehsil- Budhanpur, Azamgarh	01.01.1976
4	Ballia	1. Sushri Nootan Srivastava R/o Quarter no. III-20, Collectorate Colony near Shiv Mandir, Civil Lines, Ballia.	01.07.1977
5	Kanpur Nagar	1. Sushri, Sangeeta Gupta R/o H. No. 13A, Netaji Nagar, PAC Road, Kanpur Nagar	01.04.1979
6	Kushinagar	1. Sri Vindhvasini Kumar Tripathi R/o Village Ahirauli Rai, Post-Ahirauli Bazar, P.S. Kasia Kushinagar.	24.08.1981
7	Lakhimpur Khiri	1. Smt Nidhi Lata R/o Narayan Vihar Colony, Udaipur Mahewa, District Lakhimpur Khiri	04.07.1978
		2. Smt. Sunita Devi R/o Moh. Gautaiya Bagh, P.S. Kotwali, Lakhimpur Khiri.	15.06.1978
		3. Smt Urmila Singh R/o near Pandey Baba mandir, Palia Kalan, District Lakhimpur Khiri.	20.10.1976
8	Muzaffarnagar	1. Sri Pravin Kumar R/o H. No. 23/1, Gali no. 14, Gandhi Colony, Muzaffarnagar.	01.06.1974

1	2	3	4
9	Pratapgarh	1. Sushri Mamta Singh R/o Village & Post-Kushfarah, P.S.- Mandhata, District-Pratapgarh	20.07-1979
		2. Sushri Meera Aditya R/o Karnapur, Katra Road, Near Krishi Bhawan, Post-Pratapgarh, District-Pratapgarh	15.08.1981
		3. Sushri Minni Shukla, Advocate R/o Shukulpur, Dahila Mau, Sadar, Pratapgarh	15.07.1975
10	Shravasti	1. Sushri Mahima Tiwari R/o Village Kamdi, Post-Vishunapur Lohri, P.S.-Sirsiya, District- Sharavasti.	01.07.1973
11	Unnao	1. Sri Arindam R/o Village Shivdeen Khera (Chotkawa Khera), Post-Newrana District-Unnao.	01.04-1964
		2. Sushri Rubi Gyawali R/o 117Q/4, Indirapuri Kanpur	28.06.1973
		3. Smt. Sabina Umar R/o 466 Jawahar Nagar (Gupta Colony) Unnao.	10.10.1962

2-The engagement of the persons for the post of councillor is not appointment in Government Service and they will be attached to the respective Courts on contract basis.

3. After completion of tenure of three years, the candidates may be considered for next tenure on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad.

4. The engaged persons will receive such remuneration as may be determined by the State Government from time to time..

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.